

उत्तराखण्ड शासन
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2
संख्या: /XXXIV-2/2020-01/2010
देहरादून: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) के संचालन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-121/XXXVIII/2017-01/2010 दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 के अन्तर्गत गठित प्रबन्धकार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत प्रबन्धकार्यकारिणी एवं सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत केन्द्र की शीर्षस्थ सामान्य सभा का पुनः निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

- | | |
|---|-------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन- | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 7. प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 8. प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 9. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलोजी, देहरादून- | सदस्य |
| 10. निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद- | सदस्य |
| 11. निदेशक, जी0बी0 पन्त नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ हिमालयन-
एन्वायरमेन्ट, अल्मोड़ा | सदस्य |
| 12. निदेशक, आई0आई0आर0एस0, देहरादून- | सदस्य |
| 13. महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून- | सदस्य |
| 14. निदेशक, राज्य बायोटेक कार्यक्रम, हल्दी पंतनगर- | सदस्य |
| 15. निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून- | सदस्य सचिव। |

सामान्य सभा-

- | | |
|---|---------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन- | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |
| 7. प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन- | सदस्य |

8. निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद-	सदस्य
9. निदेशक, राष्ट्रीय सुदूर संवदेन अभिकरण, हैदराबाद-	सदस्य
10. निदेशक, जी0बी0 पन्त नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ हिमालयन- एन्वायरमेन्ट, अल्मोड़ा	सदस्य
11. सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया, देहरादून-	सदस्य
12. निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून-	सदस्य
13. निदेशक, भारतीय भूगर्भ संस्थान, देहरादून-	सदस्य
17 निदेशक, राज्य बायोटेक कार्यक्रम, हल्दी, पंतनगर-	सदस्य
18 निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियॉलोजी, देहरादून-	सदस्य
19 निदेशक, आई0आई0आर0एस0, देहरादून-	सदस्य
17 महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून-	सदस्य
18 निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून-	सदस्य सचिव।

2- उक्त समिति/सभा का कार्यकाल केन्द्र के मेमोरेण्डम एण्ड रूल्स ऑफ एसोसिशन के अनुसार कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष होगा।

3- उक्त समिति/सभा के समस्त सदस्य पदेन अधिकारी होंगे। निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र नियमानुसार प्रबन्धकार्यकारिणी समिति एवं सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं उक्त समिति/सभा का कार्यकाल अवधि समाप्त होने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को समिति एवं सभा का पुनर्गठन प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

संख्या:-222/xxxviii/2017-01/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2 सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 सचिव, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5 निदेशक उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून।
- 6 समस्त सदस्यगण।
- 7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।